



NIIT Limited

Registered Office:
Plot No 85, Sector 32,
Institutional Area,
Gurugram 122 001,
(Haryana) India
Tel: +91 (124) 4293000
Fax: +91 (124) 4293333
Email: info@niit.com

CIN: L74899HR1981PLC107123

www.niit.com

May 14, 2025

The Manager

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

The Manager

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Sub: Submission of copies of newspaper advertisements for publication of extract of Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2025.

Scrip Code: BSE – 500304; NSE – NIITLTD

Dear Sir,

Enclosed herewith please find copies of the newspaper advertisements of May 14, 2025 (Financial Express and Jansatta) for publication of extract of Audited Financial Results and Quick Response code to access the complete Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2025.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours sincerely,

For **NIIT Limited**

Arpita B Malhotra

**Company Secretary &
Compliance Officer**

Encls : a/a

MOVE COMES AFTER 'SPECIFIC REQUEST' BY MEA

Jaishankar's security to be enhanced

- Security for foreign secy to be also reviewed

MAHENDER SINGH MANRAL
New Delhi, May 13

THE DELHI POLICE has started the process of increasing security cover for External Affairs Minister S Jaishankar following a “specific request” from the Ministry of External Affairs over the weekend — after military hostilities between India and Pakistan along the border had peaked following the Pahalgam terror attack, it has been learnt.

The police are also reviewing their security cover for Foreign Secretary Vikram Misri, and at least 25 leaders from BJP, including Union Ministers, MPs and Delhi Chief Minister Rekha Gupta. This decision was taken during a meeting held by Delhi Police Commissioner Sanjay Arora with all senior officers Sunday on security for VIPs who spoke



out publicly against Pakistan on social media amid the military confrontation. It was also decided to provide firing and

In the case of Jaishankar, sources said, the police have urged the Union Home Ministry to conduct a threat assessment.

The measures being considered include increasing the number of spotters outside the Union Minister's residence

and office, an escort car and a new call sign for him.

“He has Z category security cover of the CRPF, which has six gunmen for mobile security, and ten more for residence security. Earlier, there was Z plus, which has 10 security personnel for mobile security and ten others for residence security,” a senior officer said.

Home Ministry guidelines regarding security arrangements for VIPs and VVIPs do not currently have provision for an escort car and a specific call sign.

"On Sunday, the MEA had sent a letter to a senior police officer at PHQ and they have now sent it to the MHA, asking to take a decision after conducting a fresh threat assessment," the sources said.

Referring to the meeting at the police HQ, sources said, "Following the directions of a special CP rank officer, a list of around 25 VIPs, all belonging to the BJP, and Foreign Secretary Vikram Misri, was prepared.

CBSE results: Dip in number of students with over 90% score

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, May 13

GIRLS CONTINUED TO outshine boys in CBSE board exams for classes 10 and 12, while the number of candidates scoring above 90% in both classes recorded a dip, according to Examination

The pass percentage in both classes witnessed a marginal increase.

The Central Board of Sec-

ondary Education (CBSE) board exam results for the two classes were announced on Monday.

In class 12, 88.39% of candidates cleared the exam, a marginal rise from last year's 87.98%. The pass percentage in class 10 stood at 93.66, marginally up from last year's 93.60%.

Girls edged past boys in class 12 by a margin of 5.94 percentage points, while the margin in class 10 pass percentage stood at 2.37.

Transgender's pass percentage was 100 in class 12 as against previous year's 50. In class 10, the pass percentage of transgender was 95 against last year's 91.30. The board, however, did not divulge the number of transgender candidates who appeared for the exam in both classes.

CBSE officials attributed the rise in pass percentage to an increase in the number of competency-based questions this year.



बँक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
एन सी ई डी

Head Office: Lokmangal, 1501,
Shivajinagar, Pune - 411 005
Ph: 020-25511360
E-mail: investor_services@mahabank.co.in
Website : www.bankofmaharashtra.in

Notice to Shareholders of Bank

This is to inform that with a view to fill in the vacancy of One Shareholder Director for the purpose of increase in paid up equity share capital as mentioned in Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, Bank will conduct election of One Shareholder Director.

In view of the above, Bank has fixed **Friday, 23rd May, 2025** as the **Specified Date** for the purpose of ascertaining the Shareholders of Bank eligible to participate i.e., "to Nominate, Contest and Vote" in the election process of One Director of Bank of Maharashtra to be elected by the Shareholders other than the Central Government, from among themselves, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with The Banking Regulation Act 1949, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, The Bank of Maharashtra (Shares & Meetings) Regulations, 2004 as amended from time to time, Notifications of Reserve Bank of India and Government of India and SEBI (LODR) Regulations, 2015 at the ensuing Annual General Meeting.

Last date for submission of nomination forms is **on or before 5.00 pm on Tuesday, 10th June, 2025.**

Date : 14.05.2025

(Vishal Sethia)

Place: Pune **Company Secretary & Board Secretary**

Pahal Financial Services Private Limited

Regd. Office : 7th Floor, Binori B Square-2 Opp. Hathising ni vadi, Ambli Icon Road Ahmedabad 380054
Ph : 027-17479169 Email : ho@pahalfinance.com Website : www.pahalfinance.com
CIN : U65911GJ1994PTC082668

Format for publishing financial results in newspapers
 [Regulation 52 (B), read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations)]

Sr. No.	Particulars	(Rupees in Lakhs)				
		Quarter Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.03.2024	Previous Quarter Ended 31.12.2024	Year to Date 31.03.2025 31.03.2024	
1.	Total Income from Operations	11,057.25	13,391.11	13,251.35	50,434.12	46,110.86
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	392.12	1,413.10	(945.15)	423.84	5,198.33
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	392.12	1,413.10	(945.15)	423.84	5,198.33
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	511.57	1,037.91	(852.11)	636.59	3,914.61
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income [after tax])	(319.59)	993.52	(418.37)	(418.46)	3,469.52
6.	Paid up Equity Share Capital	6,483.70	4,689.77	4,692.02	6,483.70	4,689.77
7.	Reserves (including Reserves) Reserve	34,304.36	31,891.83	31,683.92	34,304.36	31,891.83
8.	Securities Premium Account	27,704.49	14,706.21	14,726.29	27,704.49	14,706.21
9.	Net worth	40,788.56	26,581.60	26,375.94	40,788.56	26,581.60
10.	Paid up Debt Capital Outstanding Debt	1,40,248.95	1,52,920.03	1,48,568.70	1,40,248.95	1,52,920.03
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares					
12.	Debt Equity Ratio	3.44	5.75	5.63	3.44	5.75
13.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	1 Basic	(1.09)	2.15	(1.82)	1.36	10.04
	2 Diluted	(1.09)	2.15	(1.82)	1.36	10.04
14.	Capital Redemption Reserve	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15.	Debtenture Redemption Reserve	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16.	Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17.	Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (a) and the listed entity.

b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges) Bombay Exchange and can be accessed on the URL: (<https://www.bseindia.com/stock-share-price/debt-other/cricpcode/958753/debt-corp-announcements>)

For Pahal Financial Services Private Limited

36/-
Kartik S Mehta
Managing Director

Date: 14.05.2025

Place: Ahmedabad

Post-Offer Advertisement under Regulation 18(12) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 for the attainment of the Public Shareholders OF

RISHABH ENTERPRISES LIMITED

CIN: L51909MH1984PLC217695;

Registered Office: Warden House, 340, J. J. Road, Byculla, Mumbai, Maharashtra 400008;

Contact Details: 022-69967900; Fax: (91) 2213077 7231; Website: www.rishabhenterprisesind.com;

Email Address: cosec@rishabhenterprisesind.com

Open Offer for acquisition of upto 2,60,000 (Two Lakh Sixty Thousand) fully paid up equity shares of Rs. 10/- each, representing 26.00% (Twenty Six Percent) of the equity and voting share capital of Rishabh Enterprises Limited ('REL' or Target Company), at an offer price of Rs. 22.00/- (Rupees Twenty Two Only) ('Offer Price'), made by Mr. Deepak Babulal Kharwad ('Acquirer'), in accordance with the provisions of Regulations 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto ('SEBI (SAST) Regulations') ('Offer').

This Post-Offer Advertisement is being issued by Bonanza Portfolio Limited, the Manager to the Offer ('Manager'), on behalf of the Acquirer in connection with the Offer made by the Acquirer to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulation 18(12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations. The Detailed Public Statement ('DPS') and Pre-Offer Advertisement cum Conpendium to the Detailed Public Statement, with respect to the aforementioned offer, was made in the newspapers, namely being Financial Express (English daily - All Edition), Jansatta (Hindi daily - All Edition) and Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), on December 31, 2024 and April 07, 2025, respectively.

- Name of the Target Company** : Rishabh Enterprises Limited
- Name of the Acquirer(s) and PAC** : Mr. Deepak Babulal Kharwad
There is no person acting in concert with the Acquirer for this Offer.
- Name of Manager to the Offer** : Bonanza Portfolio Limited
- Name of Registrar to the Offer** : Purva Sharegistry (India) Private Limited
- Offer Details** :
 - Date of Opening of the Offer : Tuesday, April 08, 2025
 - Date of Closing of the Offer : Thursday, April 24, 2025
- Date of Payment of Consideration** : Friday, May 09, 2025
- Details of the Acquisition** :

Sr. No	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actuals
7.1	Offer Price	Rs. 22.00	Rs. 22.00
7.2	Aggregate number of Shares tendered	2,60,000	1,82,100
7.3	Aggregate number of Shares accepted	2,60,000#	1,82,100
7.4	Size of the Offer (Number of Shares multiplied by Offer Price per Share)	Rs. 57,20,001	Rs. 40,06,200
7.5	Shareholding of the Acquirer before Agreement/ Public Announcement (No. & %)	0 0.00%	0 0.00%
7.6	Shares acquired by way of Agreement <ul style="list-style-type: none"> Number % of fully diluted Equity Share capital 	1,81,550 18.16%	1,81,550 18.16%
7.7	Shares acquired by way of Open Offer <ul style="list-style-type: none"> Number % of fully diluted Equity Share capital 	2,60,000 26.00%	1,82,100 18.21%
7.8	Shares acquired after the Detailed Public Statement <ul style="list-style-type: none"> Number of shares acquired Price of the shares acquired % of shares acquired 	0 Not Applicable Not Applicable	0 Not Applicable Not Applicable
7.9	Post-Offer share holding of the Acquirer <ul style="list-style-type: none"> Number % of fully-diluted shares acquired 	4,41,550* 44.16%	3,63,650 36.37%
7.10	Pre Offer shareholding of the Public <ul style="list-style-type: none"> Number % of fully diluted equity share capital Post Offer shareholding of the Public <ul style="list-style-type: none"> Number of Equity Shares % of fully-diluted equity share capital 	8,18,450 81.84% 5,58,450 55.85%	8,18,450 81.84% 6,36,350* 63.63%


* 50 equity shares, tendered in Physical Form is in the process of getting transfer to Acquirer demat account

- The Acquirer, accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (SAST) Regulations.
- A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, MSEI Limited at www.msei.in, and at the registered office of the Target Company.

This Post Offer Advertisement is being published in all the newspapers in which the DPS was published.

Capitalized terms used but not defined in this POA shall have the meanings assigned to such terms in the Public Announcement and/or DPS and/or Letter of Offer.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER




Bonanza
make money. not mistakes.

BONANZA PORTFOLIO LIMITED
Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walhat Road, Behind The Hub, Goregaon East, Mumbai - 400 063
Contact Number: +91 22 68363773/ 91 11 40748709
Email Address: swati.agrawal@bonanzaonline.com; abhay.bansal@bonanzaonline.com
Contact Person: Ms. Swati Agrawal / Mr. Abhay Bansal
SEBI Registration Number: INM000012306
Validity: Permanent

For and on behalf of Acquirer,
Sd/-
Mr. Deepak Babulal Kharwad
(Acquirer)

Date: Saturday, May 17, 2025


Place: Mumbai




**THE BIGGEST CAPITAL
ONE CAN POSSESS**

KNOWLEDGE

FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead



NIIT Limited											
Regd Office : Plot No. 85, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India											
Tel : +91 (124) 4293000 Fax : +91 (124) 4293333 Website: www.niit.com Email : investors@niit.com											
Corporate Identity Number : L74899HR1981PLC107123											
Extract of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025											
(Rs. in Millions, except per share data)											
S. No.	Particulars	Consolidated					Standalone				
		Quarter ended			Year ended		Quarter ended			Year ended	
		3 Months ended March 31, 2025	Preceding 3 months ended December 31, 2024	Corresponding 3 months ended March 31, 2024	Current year ended March 31, 2025	Previous year ended March 31, 2024	3 Months ended March 31, 2025	Preceding 3 months ended December 31, 2024	Corresponding 3 months ended March 31, 2024	Current year ended March 31, 2025	Previous year ended March 31, 2024
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited (Refer note 4)	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited (Refer note 4)
1	Total Income from Operations	862.85	981.11	743.44	3,575.83	3,034.72	284.99	317.34	300.56	1,259.52	1,298.19
2	Net Profit for the quarter/ year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	168.35	173.71	128.77	591.64	462.02	194.69	34.44	97.67	383.33	370.93
3	Net Profit for the quarter/ year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	165.85	173.71	128.77	589.14	459.11	192.19	34.44	97.67	380.83	368.02
4	Net Profit for the quarter/ year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (before discontinued operations)	137.73	140.79	114.77	495.13	399.14	190.85	32.74	93.58	375.86	351.56
5	Loss after tax from discontinued operations	(0.76)	(0.96)	(0.86)	(14.97)	(4.18)	(0.76)	(0.96)	(0.86)	(14.97)	(4.18)
6	Net Profit for the quarter/ year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	136.97	139.83	113.91	480.16	394.96	190.09	31.78	92.72	360.89	347.38
7	Total Comprehensive Income for the quarter/ year [Comprising Profit for the quarter/ year (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	135.06	135.84	108.27	487.16	381.93	185.96	33.69	93.79	361.54	351.34
8	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each, fully paid)	271.19	271.03	270.14	271.19	270.14	271.19	271.03	270.14	271.19	270.14
9	Reserves excluding revaluation reserves				10,517.53	10,065.97				10,357.74	10,012.88
10	Earnings/(Loss) Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised for the quarter, in Rs.)										
	Continuing Operations										
	- Basic	0.98	1.00	0.84	3.52	2.88	1.41	0.24	0.70	2.78	2.61
	- Diluted	0.97	0.98	0.83	3.47	2.84	1.39	0.23	0.69	2.74	2.58
	Discontinued Operations										
	- Basic	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.11)	(0.03)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.11)	(0.03)
	- Diluted	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.11)	(0.03)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.11)	(0.03)
	Continuing and Discontinued Operations										
	- Basic	0.97	0.99	0.83	3.41	2.85	1.40	0.23	0.69	2.67	2.58
	- Diluted	0.96	0.97	0.82	3.36	2.81	1.38	0.22	0.68	2.63	2.55
Notes:											
1 The above is an extract of the detailed format of quarterly / year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of Financial Results is available on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.niit.com under Investors → Disclosures under Regulation 46 of the LODR → Financial Results. The same can also be accessed by scanning the QR code given below.											
2 The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 13, 2025.											
3 Total Income from Operations represent revenue from operations.											
4 The National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench vide Order dated May 19, 2023 sanctioned the Composite Scheme of Arrangement (Approved by the board of directors of the Company on January 28, 2022). The Scheme became effective on May 24, 2023 upon filing of the certified copies of the NCLT order, sanctioning the Scheme with the respective jurisdictional Registrar of Companies. Pursuant to the Scheme becoming effective, the CLG Business Undertaking is demerged from NIIT Limited ("NIIT") and transferred to and vested in NIIT Learning Systems Limited ("NLSL") with effect from April 1, 2022 i.e. the Appointed Date. Accordingly, the effect of the demerger accounting is given in the financial results of previous periods in accordance with the accounting treatment prescribed in the Scheme and relevant accounting principles. The Company has transferred specific income, expenses, assets, liabilities and reserves of CLG Business Undertaking w.e.f. Appointed Date till Effective Date based on the allocation as prescribed in the Scheme and with respect to common items, the allocations are approved by the Board of Directors of the company.											
5 Subsequent to the year end on April 17, 2025, the Company signed a Share Subscription and Purchase Agreement ("SSPA") and other related transaction documents with iamneo Edutech Private Limited ("NEO"). Accordingly, the Company subscribed for new equity shares in NEO and also completed secondary acquisition of shares from NEO promoters, resulting in 70% equity shareholding (on a fully diluted basis) in NEO for a consideration of Rs. 613 Million, subject to certain closing adjustments. The remaining 30% shareholding of NEO will be acquired by the Company from the NEO promoters in subsequent tranches over the next five years, subject to certain terms and conditions outlined in the SSPA and other transaction documents. As a result of this acquisition, NEO has become a subsidiary of the Company.											
6 Subsequent to the year end, the Company, at its meeting held on April 19, 2025, approved a proposal to purchase 1,900,000 equity shares of NIIT Institute of Finance Banking and Insurance Training Limited (IFBI), a subsidiary of the Company from ICICI Bank Limited and 50,000 equity shares from Individual shareholders . Post acquisition of above shares, IFBI will become a wholly owned subsidiary of the Company.											
7 The Board of Directors of the Company, subsequent to the year end, recommended a final dividend of Rs. 1 per equity share in the meeting held on May 13, 2025, subject to approval of the shareholders at the Annual General Meeting.											
<div><div>Place: Gurugram Date : May 13, 2025</div><div></div><div><div>By order of the Board For NIIT Limited Sd/- Vijay K Thadani Vice-Chairman & Managing Director</div></div></div>											

विद्यार्थियों को कोई एक परीक्षा परिभाषित नहीं कर सकती : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 मई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के परिणाम घोषित होने पर छात्रों को मंगलवार को बधाई देते हुए कहा कि कोई एक परीक्षा उन्हें परिभाषित नहीं कर सकती तथा उनको ताकत अंक पत्रों से कहीं अधिक है।

मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सीबीएसई बारहवीं और दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। यह आपके दृढ़ संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम है। आज माता-पिता, शिक्षकों और अन्य सभी लोगों की भूमिका की भी सराहना करने का दिन है जिन्होंने इस उपलब्धि में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आगामी सभी अवसरों में सफलता की शुभकामनाएं।

जो लोग अपने अंकों से थोड़ा निराश महसूस कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं: कोई एक परीक्षा आपको कभी परिभाषित नहीं कर सकती। आपकी यात्रा इससे बहुत बड़ी है और आपकी ताकत अंक पत्रों से कहीं अधिक है। आत्मविश्वास बनाए रखें, जिज्ञासु बने रहें क्योंकि महान चीजें इंतजार कर रही हैं।

सीबीएसई : शीर्ष 0.1 फीसद छात्रों को मेधावी प्रमाण पत्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 मई।

सीबीएसई ने को कहा कि वह किसी भी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों में न तो कोई मेधावी सूची घोषित करेगा और न ही छात्रों की उत्तीर्ण श्रेणी इंगित करेगा। बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए।

दसवीं कक्षा की परीक्षा में 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 88.39 प्रतिशत रहा। दोनों परीक्षाओं में लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा,ह्रद्यबोर्ड द्वारा पहले लिए गए निर्णय के अनुसार, विद्यार्थियों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए, सीबीएसई द्वारा मेधावी सूची घोषित नहीं की गई है।



वृंदावन में संत प्रेमानंद के आश्रम में अनुष्का शर्मा व विराट कोहली।

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद अनुष्का संग वृंदावन पहुंचे कोहली

मथुरा, 13 मई (जनसत्ता)।

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने के बाद भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली अपनी अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने वृंदावन पहुंचे। वे आश्रम में करीब साढ़े तीन घंटे रुके।

उन्होंने संत प्रेमानंद से भेंट करने के बाद आश्रम का भ्रमण कर वहां संचालित प्रकल्पों के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस दौरान संत प्रेमानंद ने कहा कि प्रभु का विधान है मनुष्य को वैभव मिलना, यह प्रभु की कृपा है। जब तक आपके अंदर का चिंतन नहीं बनेगा तब तक आपको प्रभु की कृपा नहीं होगी।

अनुष्का शर्मा ने पूछा क्या नाम लेने से भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो प्रेमानंद महाराज ने कहा कि केवल राधा नाम ही कलयुग में एकमात्र सहारा है। इसी के सहारे कलयुग में भक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान विराट, अनुष्का ने आश्रम के कामकाज को देखा समझा। विराट कोहली का वृंदावन का यह तीसरा दौरा था।

संभल : जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर मामले में फैसला सुरक्षित

प्रयागराज, 13 मई (भाषा)।

संभल स्थित जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकीलों, मंदिर पक्ष से हरिश्चंकर जैन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

इससे पूर्व, पांच मई को एएसआइ के वकील ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था जिस पर अदालत ने मस्जिद कमेटी के वकील को 'रिज्वाइंडर' दाखिल करने का समय दिया था और सुनवाई की अगली तारीख 13 मई तय की थी। मस्जिद कमेटी ने संभल की अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। संभल की अदालत ने अधिवक्ता आयोग द्वारा मस्जिद का पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्देश दिया था। इससे पूर्व, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल की जिला अदालत में लंबित मूल वाद पर सुनवाई पर अगली तिथि तक के लिए रोक लगा दी थी।

‘मोदी की आतंकियों को चेतावनी, नया सिद्धांत गढ़ा’

अमरावती, 13 मई (भाषा)।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के लिए कड़ी चेतावनी बताते हुए कहा कि मोदी ने भारत के नए सिद्धांत को आकार दिया है।

नायडू ने एक्स पर कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण नहीं दिया, उन्होंने भारत के नए सिद्धांत को आकार दिया। उनका संबोधन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी और दुनिया को देश की ताकत के बारे में स्पष्ट संदेश है।' भारत को आध्यात्मिक विरासत व अत्याधुनिक क्षमताओं के कारण वैश्विक सम्मान प्राप्त है।

देश

फिलीपीन में छुट्टियां मनाने गए महाराष्ट्र के दंपति की हादसे में मौत

पालघर, 13 मई (भाषा)।

फिलीपीन में छुट्टियां मनाने गए महाराष्ट्र के एक दंपति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।

चर्च के पदाधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

क्र. सं.	विवरण		
		31-03-2025	
		(अंकेशित)	
1	संचालन से कुल आय	16,524.00	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पूर्व, एक्सेपानल और/या एक्स्ट्राऑर्डनरी मदों)	1,489.67	
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (एक्सेसनल और/या एक्स्ट्राऑर्डनरी मदों के बाद)	1,489.67	
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (एक्सेसनल और/या एक्स्ट्राऑर्डनरी मदों के बाद)	1,126.17	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि हेतु शामिल लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्)]	763.30	
6	इक्विटी शेयर पूंजी (₹ 2/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	723.69	
7	अन्य इक्विटी		
8	प्रति शेयर आय (₹ 2/- प्रत्येक) – (जारी और बंद परिचालन के लिए) बेसिक डाइल्यूटिड	3.12	3.10

टिप्पणियाँ:

- 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड ('कंपनी') और इसकी सहायक कंपनियाँ (समूहिक रूप से 'समूह') के स्टैंडअलोन और समेकित वार्षिक वित्तीय परिणाम ऑडिट किए गए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों से निकाले गए हैं और ऑडिट समिति द्वारा उनकी समीक्षा की गई है और 13 मई 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। समूह के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने इन स्टैंडअलोन और समेकित वार्षिक वित्तीय परिणामों पर एक अपरिवर्तित लेखा परीक्षा राय व्यक्त की है।
- उपरोक्त परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित लागू भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस') की मान्यता और माप सिद्धांतों, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों और संबंधी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (संशोधित) के विनियमन 33 के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।
- कंपनी मुख्य रूप से फास्टनरों (अर्थात ऑटोमोटिव घटकों) के विनिर्माण के व्यवसाय में है, जो भारतीय लेखा मानक 108, 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के संदर्भ में एकल व्यवसाय खंड के अंतर्गत आता है और इसलिए, कोई अतिरिक्त खुलासा नहीं किया गया है।
- कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2.50 रुपये का अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।
- माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच ने 27 मार्च 2025 के आदेश ('आदेश') के तहत, 01 अप्रैल 2024 ('नियुक्त तिथि') से स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड ('कंपनी') के साथ हरियाणा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ('पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी') के सम्मेलन की योजना को मंजूरी दे दी है और कंपनी द्वारा 23 अप्रैल 2025 को दिल्ली और हरियाणा के एनसीटी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ आदेश दायर किया गया था।
- स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड की ईएसओपी योजना 2023 के अनुसार, एक सहायक कंपनी के कर्मचारी को 1,60,107 विकल्प दिए गए हैं, जो 31 जनवरी 2025 को निहित थे और बाद में कर्मचारी द्वारा उनका प्रयोग किया गया। स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड के व्यावाम पत्र, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश और बोर्ड की मंजूरी के आधार पर, इक्विटी शेयर उसके पक्ष में अवर्तित किए गए हैं।
- पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्संमूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के पुनर्वर्गीकरण/पुनर्संमूहीकरण का प्रभाव स्टैंडअलोन और समेकित वार्षिक वित्तीय परिणामों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।



दिनांक: 13 मई, 2025
स्थान: फरीदाबाद

NIIT Limited

Regd Office : Plot No. 85, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India
Tel : +91 (124) 4293000 Fax : +91 (124) 4293333 Website: www.niit.com Email : investors@niit.com
Corporate Identity Number : L74899HR1981PLC107123

Extract of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025

S. No.	Particulars	Consolidated					Standalone				
		Quarter ended			Year ended		Quarter ended			Year ended	
		3 Months ended March 31, 2025	Preceding 3 months ended December 31, 2024	Corresponding 3 months ended March 31, 2024	Current year ended March 31, 2025	Previous year ended March 31, 2024	3 Months ended March 31, 2025	Preceding 3 months ended December 31, 2024	Corresponding 3 months ended March 31, 2024	Current year ended March 31, 2025	Previous year ended March 31, 2024
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited (Refer note 4)	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited (Refer note 4)
1	Total Income from Operations	862.85	981.11	743.44	3,575.83	3,034.72	284.99	317.34	300.56	1,259.52	1,298.19
2	Net Profit for the quarter/ year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	168.35	173.71	128.77	591.64	462.02	194.69	34.44	97.67	383.33	370.93
3	Net Profit for the quarter/ year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	165.85	173.71	128.77	589.14	459.11	192.19	34.44	97.67	380.83	368.02
4	Net Profit for the quarter/ year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (before discontinued operations)	137.73	140.79	114.77	495.13	399.14	190.85	32.74	93.58	375.86	351.56
5	Loss after tax from discontinued operations	(0.76)	(0.96)	(0.86)	(14.97)	(4.18)	(0.76)	(0.96)	(0.86)	(14.97)	(4.18)
6	Net Profit for the quarter/ year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	136.97	139.83	113.91	480.16	394.96	190.09	31.78	92.72	360.89	347.38
7	Total Comprehensive Income for the quarter/ year [Comprising Profit for the quarter/ year (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	135.06	135.84	108.27	487.16	381.93	185.96	33.69	93.79	361.54	351.34
8	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each, fully paid)	271.19	271.03	270.14	271.19	270.14	271.19	271.03	270.14	271.19	270.14
9	Reserves excluding revaluation reserves				10,517.53	10,065.97				10,357.74	10,012.88
10	Earnings/(Loss) Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised for the quarter, in Rs.)										
	Continuing Operations										
	- Basic	0.98	1.00	0.84	3.52	2.88	1.41	0.24	0.70	2.78	2.61
	- Diluted	0.97	0.98	0.83	3.47	2.84	1.39	0.23	0.69	2.74	2.58
	Discontinued Operations										
	- Basic	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.11)	(0.03)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.11)	(0.03)
	- Diluted	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.11)	(0.03)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.11)	(0.03)
	Continuing and Discontinued Operations										
	- Basic	0.97	0.99	0.83	3.41	2.85	1.40	0.23	0.69	2.67	2.58
	- Diluted	0.96	0.97	0.82	3.36	2.81	1.38	0.22	0.68	2.63	2.55

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly / year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of Financial Results is available on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.niit.com under Investors → Disclosures under Regulation 46 of the LODR → Financial Results. The same can also be accessed by scanning the QR code given below.
- The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 13, 2025.
- Total Income from Operations represent revenue from operations.
- The National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench vide Order dated May 19, 2023 sanctioned the Composite Scheme of Arrangement (Approved by the board of directors of the Company on January 28, 2022). The Scheme became effective on May 24, 2023 upon filing of the certified copies of the NCLT order, sanctioning the Scheme with the respective jurisdictional Registrar of Companies. Pursuant to the Scheme becoming effective, the CLG Business Undertaking is demerged from NIIT Limited ("NIIT") and transferred to and vested in NIIT Learning Systems Limited ("NLSL") with effect from April 1, 2022 i.e. the Appointed Date. Accordingly, the effect of the demerger accounting is given in the financial results of previous periods in accordance with the accounting treatment prescribed in the Scheme and relevant accounting principles. The Company has transferred specific income, expenses, assets, liabilities and reserves of CLG Business Undertaking w.e.f. Appointed Date till Effective Date based on the allocation as prescribed in the Scheme and with respect to common items, the allocations are approved by the Board of Directors of the company.
- Subsequent to the year end on April 17, 2025, the Company signed a Share Subscription and Purchase Agreement ("SSPA") and other related transaction documents with iamneo Edutech Private Limited ("NEO"). Accordingly, the Company subscribed for new equity shares in NEO and also completed secondary acquisition of shares from NEO promoters, resulting in 70% equity shareholding (on a fully diluted basis) in NEO for a consideration of Rs. 613 Million, subject to certain closing adjustments. The remaining 30% shareholding of NEO will be acquired by the Company from the NEO promoters in subsequent tranches over the next five years, subject to certain terms and conditions outlined in the SSPA and other transaction documents. As a result of this acquisition, NEO has become a subsidiary of the Company.
- Subsequent to the year end, the Company, at its meeting held on April 19, 2025, approved a proposal to purchase 1,900,000 equity shares of NIIT Institute of Finance Banking and Insurance Training Limited (IFBI), a subsidiary of the Company from ICICI Bank Limited and 50,000 equity shares from Individual shareholders . Post acquisition of above shares, IFBI will become a wholly owned subsidiary of the Company.
- The Board of Directors of the Company, subsequent to the year end, recommended a final dividend of Rs. 1 per equity share in the meeting held on May 13, 2025, subject to approval of the shareholders at the Annual General Meeting.



Place: Gurugram
Date : May 13, 2025

By order of the Board
For NIIT Limited
Sd/-
Vijay K Thadani
Vice-Chairman & Managing Director